

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
डेरी विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 20 सितम्बर, 2019 :

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिला डेरी विकास योजना (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-544-45/लेखा प्रस्ताव आयो० महिला डेरी/2019-20, दिनांक 22 अगस्त, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)/-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना (एस०सी०एस०पी०) में प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख के सापेक्ष रू० 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नवत मदवार आपके निर्वर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	मद का नाम	(धनराशि रूपये लाख में) स्वीकृति धनराशि
1	महिला दुग्ध समितियों का गठन/पुर्नगठन	2.70
2	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	37.04
3	प्रपोल्सन चार्ज	2.20
4	एक्सटेन्शनएण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	2.57
5	ओवराईडिंग कॉस्ट	2.46
6.	दुग्ध उत्पादक सदस्यों हेतु प्रोत्साहन/प्रेरक कार्यक्रम	3.03
	योग	50.00

- सुपरवीजन, मॉनीटरिंग मद की धनराशि अनुसूचित जाति वर्ग के कार्मिकों को जो कि समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत है, के वेतन-भत्तो का भुगतान किया जा सकता है। यह धनराशि दुग्ध समितियों हेतु व्यय नहीं की जायेगी।
- उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि की जायेगी तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-08 पर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करायी जाय।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

Secretary-Secretary, Dairy  
Development(S007)

HOD-Director Dairy Development(2353)

आवंटन पत्र संख्या -514/XV-  
2/01(08)/2018(Dairy)

अनुदान संख्या-030

लेखा शीर्षक

2404-डेरी विकास

102-डेरी विकास परियोजनाएं

आवंटन आई डी-S19090300026

आवंटन पत्र दिनांक-20-SEP-2019


00--

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल  
कम्पोनेन्ट प्लान

02-महिला डेरी विकास योजना												Voted
2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	2	0	2
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी			वर्तमान में जारी			अब तक का व्यय			योग		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0			5000000			0			5000000		
योग	0			5000000			0			5000000		

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,00,000 (Rupees Fifty Lacs Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

  
(आरएसओ पुन्डीर)  
उप सचिव  
सुपालन, डेरी, मत्स्य एवं भाषा विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।